

Disc.CD No.307, dated 28.04.07 at Haripur (Orissa)

Kisi bhai nay poocha – Sakar may Dharmaraj ka part bajaaney vaali aatma Ishwariya Sanvidhaan may kis shreshtha....may paarangat honi chaahiye? Vo shreshth vakeel kaun hain aur kitney hain?

Baba nay jawaab diya – Yahaan sanvidhaan kaun sa hai? Brahmanon kee duniya ka sanvidhaan kaun-sa hai? Brahmanon kee duniya ka sanvidhaan hai – ‘Murli’, aur Murli kay mahavaakyon may jo jitnaa paarangat hoga, voh utnaa hee badaa vakeel hai. Pehley toh apney ko chutkara dilaavey. Ham sab jail may padey huay hain. Ravan kee jail hai, Kans kee jail hai. Us Kans kee jail may pehley khud ka chutkara ho. Saath-saath doosron ka bhi chutkara karney vala baney. Vakeel log hotey hain, unka dhandha hee kya hota hai? Fansey huay ko chudana. Voh toh had kay vakeel hain. Had kee kamaai kartey hain aur yahaan toh behad kee kamaai hai anek janmon kee. Jitnaa-jitnaa apney ko chudaatey jaayengey, auron ko bhi chudaaney may samarth bantey jaavengey. Uskay liye chaahiye Ishwariya gyaan ki paraakaashthaa. Jo gyaan may jitnaa teekha hoga, utnaa badaa vakeel banega. Dharmaraj Baap ka sahyogi banega.

Kisi bhai nay poocha – Baba, shaktiyon kay saath Pandavon ka bhi vishesh part hai. Aisa hee chance miltaa rahey aur miltaa rahega – aisa vishesh ban-na hai. Toh vishesh part kaun sa hai?

Baba nay jawaab diya – Shiv shakti. Kya kaha jata hai? Naam kya diya hai? Shiv kay saath shakti. Shivpandav toh nahi kaha? Kaha? Nahi kaha. Shiv aur Shakti kee yuti hai. Jo Shiv kay saath shaktipaney ka jitna bhaav apnakay rakhtee hai, utnee voh aatma janma janmaantar kee powerful aatma ban jaati hai, aur us bhaav may fail ho jaati hai, toh koi na koi Pandav may latak jaati hai, aur us bhaav may fail ho jaati hai, toh koi na koi Pandav may latak jaati hai. Toh Pandavshakti kahein ya Shivshakti kahein? Kya parivartan ho jata hai? Hm? Unko Shivshakti kahein ya Pandavshakti? Pandavshakti ban jati hai. Isliye jab sena ka naam liya jata hai, toh kahtey hain – Shivshakti, fir baad may Pandavsena. Pandav jo hain, voh shaktiyon kee suraksha kay liye banaaye gaye hain, rakshak ban-ney kay liye banaaye gaye hain ya bhakshak ban-ney kay liye banaaye gaye hain? Hm? Rakshak ban-ney kay liye banaaye gaye hain. Toh apnaa kaarya agar mustaidi say karengey, toh ho sakta hai unko samaan stage mil jaaye, lekin agar apney kaarya may fail ho gaye, toh Shiv Baap kay kaarya may jo ki Shivaalay banaaney ka mukhya kaarya hai. Us kaarya may veshyaalay banaaney kay adhikaari ban jaavengey. Shivaalay kay adhishthaata nahee banengey, adhikaari nahee banengey. Kahaan kay adhikaari banengey? (Kisi nay kaha – veshyaalay) Hm? (Kisi nay kaha – veshyaalay) Veshyaalay kay adhikaari banengey.

वार्तालाप वी.सी.डी. नं. 307 ता. 28.4.07 हरिपुर (उड़ीसा)

किसी भाई ने पूछा – साकार में धर्मराज का पार्ट बजाने वाली आत्मा ईश्वरीय संविधान में किस श्रेष्ठ.....में पारंगत होनी चाहिए? वो श्रेष्ठ वकील कौन हैं और कितने हैं? बाबा ने जवाब दिया – यहाँ संविधान कौन-सा है? ब्राह्मणों की दुनियाँ का संविधान कौन-सा है? ब्राह्मणों की दुनियाँ का संविधान है – “मुरली”, और मुरली के महावाक्यों में जो जितना पारंगत होगा, वो उतना ही बड़ा वकील है। पहले तो अपने को छुटकारा दिलावे। हम सब जेल में पड़े हुए हैं। रावण की जेल है, कंस की जेल है। उस कंस की जेल में

पहले खुद का छुटकारा हो। साथ-साथ दूसरों का भी छुटकारा करने वाला बने। वकील लोग होते हैं, उनका धंधा ही क्या होता है? फँसे हुए को छुड़ाना। वो तो हद के वकील हैं। हद की कमाई करते हैं और यहाँ तो बेहद की कमाई है अनेक जन्मों की। जितना-जितना अपने को छुड़ाते जावेंगे, औरों को भी छुड़ाने में समर्थ बनते जावेंगे। उसके लिए चाहिए ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा। जो ज्ञान में जितना तीखा होगा, उतना बड़ा वकील बनेगा। धर्मराज बाप का सहयोगी बनेगा।

किसी भाई ने पूछा – बाबा, शक्तियों के साथ पाण्डवों का भी विशेष पार्ट है। ऐसा ही चान्स मिलता रहे और मिलता रहेगा – ऐसा विशेष बनना है। तो विशेष पार्ट कौन-सा है?

बाबा ने जवाब दिया – शिव शक्ति। क्या कहा जाता है? नाम क्या दिया है? शिव के साथ शक्ति। शिवपाण्डव तो नहीं कहा? कहा? नहीं कहा। शिव और शक्ति की युति है। जो शिव के साथ शक्तिपने का जितना भाव अपनाके रखती है, उतनी वो आत्मा जन्म जन्मांतर की पावरफुल आत्मा बन जाती है, और उस भाव में फेल हो जाती है, तो कोई न कोई पाण्डव में लटक जाती है। तो पाण्डवशक्ति कहें या शिवशक्ति कहें? क्या परिवर्तन हो जाता है? हैं? उनको शिवशक्ति कहें या पाण्डवशक्ति? पाण्डवशक्ति बन जाती है। इसलिए जब सेना का नाम लिया जाता है, तो कहते हैं – शिवशक्ति, फिर बाद में पाण्डवसेना। पाण्डव जो हैं, वो शक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाये गये हैं, रक्षक बनने के लिए बनाये गये हैं या भक्षक बनने के लिए बनाये गये हैं? हैं? रक्षक बनने के लिए बनाये गये हैं। तो अपना कार्य अगर मुस्तैदी से करेंगे, तो हो सकता है उनको समान स्टेज मिल जाए; लेकिन अगर अपने कार्य में फेल हो गये, तो शिव बाप के कार्य में जो कि शिवालय बनाने का मुख्य कार्य है। उस कार्य में वेश्यालय बनाने के अधिकारी बन जावेंगे। शिवालय के अधिष्ठाता नहीं बनेंगे, अधिकारी नहीं बनेंगे। कहाँ के अधिकारी बनेंगे? (किसी ने कहा – वेश्यालय) हैं? (किसी ने कहा – वेश्यालय) वेश्यालय के अधिकारी बनेंगे।

Disc.CD No.307, dated 28.04.07 at Haripur (Orissa)

A brother asked- The soul which plays the part of Dharmaraj in corporeal form should be expert in which righteous.....in Godly Constitution? Who are those righteous advocates and how many?

Baba replied – What is the constitution here? What is the constitution of the world of Brahmins? The constitution of the Brahmin world is – Murli. And the more one is expert in the versions of Murli the greater advocate he is. First he should free himself. All of us are lying in jail. It is the jail of Ravan, the jail of Kansa. First one should become free from that jail of Kansa. Along with that, one should become the one who frees others as well. What is the occupation of the advocates? To free someone who is entangled. They are the advocates in limited sense. They earn a limited income. And here it is an unlimited income for many births. The more one makes oneself free; one would become capable of freeing others as well. For that one needs (to reach) the peak of Godly knowledge. The sharper one is in knowledge, the greater advocate one would become. One would become the helper (*sahyogi*) of Dharmaraj Father.

A brother asked – Baba, there is a special part of Pandavas along with the Shaktis. One has to become special in such a way that one keeps getting such a chance and one would keep getting chance. So what is the special part?

Baba replied – Shiv Shakti. What is said? What is the name that has been assigned? Shakti along with Shiv. Has it been said – ShivPandav? Has it been said? It has not been said. Shiv and Shakti are a pair. The more one imbibes the feeling of being a shakti of Shiv, the more that soul becomes powerful for many births. And if it fails in (imbibing) that feeling, then it gets stuck with /attached to some or the other Pandav. So will she be called Pandavshakti or Shivshakti? What is the change that takes place? Hm? Will she be called Shivshakti or Pandavshakti? She becomes Pandavshakti. That is why when the name of the army is uttered, it is said – Shivshakti, and then Pandavsena. Pandavas have been meant for the safety of Shaktis; are they meant to be their guards or are they meant to be their predators? Hm? They are meant to be their guards. So if they perform their duty with alertness, then it is possible that they attain an equal stage; but if they fail in their task, in the main task of Father Shiv which is to establish a *Shivaalay*, then they would become entitled to establishing a brothel. They would not become the presiding deities, the officers of the Shivaalay. They would become entitled to which place? (Someone said – brothel) Hm? (Someone said – brothel) They would become entitled to brothel.

.....
Note: The words in italics are Hindi words. Some words have been added in the brackets by the translator for better understanding of the translation.